

# अष्टांग योग का स्वास्थ्य पर प्रभाव

कमल सिंह पटवाल<sup>1</sup>, प्रो. डॉ. रूपाली गुप्ता<sup>2</sup>

<sup>1</sup>संशोधन विद्वान, योग विभाग, योग संकाय, निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान (भारत)

<sup>2</sup>संशोधन मार्गदर्शक, योग विभाग, योग संकाय, निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान (भारत)

## सारांश

यह शोध अष्टांग योग के आठ अंगों (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि) के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। ५५ प्रतिभागियों पर सर्वेक्षण आधारित अध्ययन में पाया गया कि योग अभ्यास से शारीरिक लचीलापन, सहनशक्ति और मानसिक शांति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मानसिक तनाव में कमी, आत्म-संयम, और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई। SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी और T-टेस्ट से डेटा का विश्लेषण किया गया। परिणामों ने योग के सभी पहलुओं में सकारात्मक सुधार को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दर्शाया। यह निष्कर्ष निकला कि अष्टांग योग का नियमित अभ्यास समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता के लिए अत्यंत प्रभावी है।

**मुख्य शब्द (Keywords):** अष्टांग योग, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, प्राणायाम, ध्यान, तनाव प्रबंधन, रोग प्रतिरोधक क्षमता

## 1 परिचय

योग का शाब्दिक अर्थ है 'संयोजन'। योग का अंतिम उद्देश्य जीवात्मा (व्यक्तिगत आत्मा) को परमात्मा (सर्वोच्च आत्मा) में विलीन करना है, जिससे सभी प्रकार के संघर्ष, इच्छाएँ और भेदभाव समाप्त हो जाएँ और निर्वाण (मोक्ष) की अवस्था प्राप्त हो। योग और ध्यान का उपयोग शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद स्थापित करने के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, जैसे हठ योग, राज योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। हॉट योगा शरीर और मन को ऊर्जावान बनाने तथा शरीर प्रणाली को स्वच्छ रखने के बारे में है। हठ योग का नियमित अभ्यास स्नायुतंत्र को एकीकृत करता है। राज योग मन के साथ काम करता है और साधक को उन्नत समाधि की अवस्था में ले जाता है, जहाँ वह परमेश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति करता है। ज्ञान योग शुद्ध चेतना की अवस्था है, जहाँ मुक्ति के लिए केवल ज्ञान ही आवश्यक है। ज्ञान के माध्यम से हम जीवन और मृत्यु के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति योग आत्मसमर्पण की क्रिया है। रजस (अहंकार) और तमस (भोगवादी दृष्टिकोण) के आवरण के बावजूद, एक सच्चा भक्त अपने को परमेश्वर की सेवा में पूर्णतः समर्पित करता है। कर्म का अर्थ है कार्य, और एक सच्चा कर्म योगी कर्म के प्रति समर्पित रहता है। कर्म को ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग माना गया है। इस योग संयोजन के माध्यम से शरीर की शक्ति, लचीलापन और मन-शरीर समन्वय का विकास होता है। साथ ही, प्राणायाम और ध्यान से मन को शांति मिलती है।

योग भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करना है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग को योग के आठ अंगों (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अंग व्यक्ति के समग्र विकास और स्वास्थ्य को

बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में बदलती जीवनशैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं जैसे तनाव, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह आदि ने योग के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। अष्टांग योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, बल्कि मानसिक शांति और आत्म-जागरूकता भी प्रदान करता है। योगिक आसनों से शरीर में लचीलापन, सहनशक्ति और ऊर्जा का विकास होता है। प्राणायाम के माध्यम से श्वसन तंत्र को मजबूत किया जाता है और ध्यान के द्वारा मानसिक तनाव को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, धारणा और समाधि जैसी योग की अवस्थाएँ व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर करती हैं। अष्टांग योग पर किए गए विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हुआ है कि इसका नियमित अभ्यास हृदय स्वास्थ्य, रक्तचाप नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक विकारों में राहत प्रदान करता है। इस प्रकार, अष्टांग योग का नियमित अभ्यास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक प्रभावी है।

## १.१ अष्टांग योग की संरचना

### अष्टांग योग

महर्षि पतंजलि के योगसूत्र के अनुसार योग के आठ चरणों को अष्टांग योग कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'योग के आठ अंग'। इन आठ अंगों में आसन (योग मुद्राएँ) और प्राणायाम (नियंत्रित श्वसन) केवल दो चरण हैं। अष्टांग योग के सभी आठ चरणों में विभिन्न योगिक क्रियाएँ शामिल हैं।

### १. यम

यम अष्टांग योग का पहला चरण है। इसका अर्थ आत्म-साक्षात्कार (स्वयं को पहचानना) होता है, लेकिन वास्तव में यम का उद्देश्य यह है कि हम अपने आपको सभी प्रकार के दूषित विचारों, ईर्ष्या, लालच और अनुचित इच्छाओं से मुक्त करें। यम का पालन करके व्यक्ति नैतिकता और शुद्धता की ओर अग्रसर होता है, जो योग साधना की नींव मानी जाती है।

### पाँच यम

1. **अहिंसा (Ahimsa)**: यह सिद्धांत सिखाता है कि किसी को भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट नहीं पहुँचानी चाहिए।
2. **सत्य (Satya)**: यह सिद्धांत बताता है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग व्यक्तित्वों के मुखौटे पहनते हैं। यह सिद्धांत हमें उन मुखौटों को हटाकर अपनी सच्ची पहचान के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। सत्य के मार्ग पर चलने से हम वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं। सत्य बोलना कठिन होता है, लेकिन यह महान कार्यों की ओर ले जाता है।
3. **अस्तेय (Asteya)**: यह सिद्धांत लोगों को अपनी ऊर्जा, संसाधनों और समय का महत्व समझने और उसका सदुपयोग करने की शिक्षा देता है।
4. **ब्रह्मचर्य (Brahmacharya)**: यह सिद्धांत हमें वास्तविकता में अटके रहने वाले भौतिक सुखों को त्यागकर मोक्ष (मुक्ति) के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
5. **अपरिग्रह (Aparigraha)**: लालच सभी समस्याओं की जड़ है। इसलिए व्यक्ति को लालच का त्याग करना चाहिए और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त होना चाहिए।

### २. नियम

नियम अष्टांग योग का दूसरा चरण है। यम का अभ्यास पूरा करने के बाद व्यक्ति नियम का अभ्यास शुरू कर सकता है। यह भोजन, नींद, सुख, लाभ और दुख के प्रति अनुशासन बनाए रखने का संकेत करता है। योग साधक को सत्संग

(अच्छे लोगों का संग), स्वाध्याय (आत्म-अध्ययन) और ईश्वर प्रणिधान (परमात्मा के प्रति समर्पण) का पालन करना चाहिए। उसे सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, जो संतुलित, शुद्ध और पोषणयुक्त हो, ताकि शरीर और मन में शांति और स्थिरता बनी रहे।

### ३. आसन

आसन अष्टांग योग का तीसरा चरण है। शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए दैनिक आसनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। आसन करते समय श्वास पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, जिससे अनुशासन की भावना विकसित होती है। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ 'योगसूत्र' में कहा है – "**स्थिरं सुखमासनम्**", अर्थात् आसन करते समय शरीर और मन को स्थिर और आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। इस अभ्यास से व्यक्ति में एकाग्रता का विकास होता है। आसनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है – लेटकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन और खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ध्यानात्मक आसनों का नियमित अभ्यास मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होता है। ये आसन मन को एकाग्र करने और आत्म-संयम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

### ४. प्राणायाम (श्वास नियंत्रण)

प्राणायाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'प्राण' यानी जीवन शक्ति और 'यम' यानी नियंत्रण या संयम। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य श्वास के माध्यम से शरीर में ऊर्जा का नियंत्रण करना है। यह श्वास पर नियंत्रण की योगिक विधि है, जो शरीर और मन को एकाग्र करने में सहायता करती है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्थिरता के साथ-साथ ऊर्जा का संतुलन भी बना रहता है। प्राणायाम के आठ प्रकार होते हैं, जिनमें शुरुआत सूर्य भेदन प्राणायाम से होती है और अंत प्लाविनी प्राणायाम पर होता है। इस प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया गया है – **कुंभक** (श्वास को रोकना), **रेचक** (श्वास को बाहर निकालना) और **पूरक** (श्वास को अंदर लेना)। इन विधियों का समुचित अभ्यास मन और शरीर में शांति, स्थिरता और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है।

### ५. प्रत्याहार

अष्टांग योग में सबसे कठिन चरण प्रत्याहार है। यह हमारी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाने का प्रयास है, जो हमें बाहरी वातावरण और बाहरी उत्तेजनाओं को रोकने की शिक्षा देता है। प्रत्याहार का अभ्यास हमें बाहरी संवेदनाओं से अलग रहने में सक्षम बनाता है, जो अक्सर हमारे हितों के लिए हानिकारक होते हैं और व्यक्तिगत विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह आत्म-संयम और आंतरिक शांति की ओर ले जाने वाली एक महत्वपूर्ण योगिक प्रक्रिया है।

### ६. धारणा

धारणा एकाग्रता की वह अवस्था है, जिसमें किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मानव शरीर और मन विभिन्न मानसिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जिससे शरीर को तनाव से मुक्ति मिलती है। मानव मन को एक सफेद पर्दे के समान माना जा सकता है, जिस पर मन द्वारा उत्पन्न विभिन्न मानसिक दबाव काले धब्बों की तरह होते हैं। इन अलग-अलग चेतनाओं को एकत्रित करने और मन को शांत करने के लिए व्यक्ति को किसी विशेष छवि या ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है। धारणा का अभ्यास मानसिक एकाग्रता और आत्म-संयम में सुधार करता है।

### ७. ध्यान

ध्यान एक ध्यानावस्था है, जिसमें मन के स्वाभाविक रूप से बिखरे हुए विचारों को क्रमबद्ध किया जाता है। ध्यान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अवांछित विचार समाप्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना सिखाती है। ध्यान आध्यात्मिक चेतना की चौथी अवस्था है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति को transcendental consciousness (अधिभौतिक चेतना) की ओर ले जाती है। यह ध्यान की एक सतत् प्रक्रिया होती

है, जिसे महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार व्यक्त किया है – "तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम्"। ध्यान मन की शांति और स्थिरता में अत्यधिक सहायक होता है।

## ८. समाधि

समाधि अष्टांग योग का आठवां और अंतिम चरण है। यह शुद्ध चेतना की अवस्था है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का एकत्व प्राप्त होता है। इस अवस्था में व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त करता है और शरीर तथा आत्मा एक हो जाते हैं। इस स्थिति में ब्रह्मांडीय चेतना (Universal Consciousness) और ब्रह्म चेतना (Consciousness of Brahman) का विलय हो जाता है। समाधि के माध्यम से जीवात्मा शांति और पूर्णता की अनुभूति करती है। यह योग साधना की उच्चतम अवस्था मानी जाती है।

## १.२ अष्टांग योग का स्वास्थ्य पर प्रभाव

### १. शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार

अष्टांग योग के नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलापन, सहनशक्ति और मांसपेशियों की मजबूती विकसित होती है। आसन से शरीर के सभी अंग सक्रिय रहते हैं और सही पोस्चर बना रहता है। प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और रक्त प्रवाह में सुधार करता है, जिससे हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं कम होती हैं। यह पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है और थकान, अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर कर शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ रखता है।

### २. मानसिक तनाव में कमी

ध्यान और प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। प्राणायाम के दौरान श्वास-प्रश्वास पर नियंत्रण मन को शांत करता है और चिंता, अवसाद जैसी मानसिक विकारों से राहत दिलाता है। नियमित ध्यान के माध्यम से व्यक्ति में आत्म-संयम और मानसिक संतुलन विकसित होता है। यह अनावश्यक विचारों को नियंत्रित कर मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे तनावग्रस्त परिस्थितियों में भी मन स्थिर और केंद्रित रहता है।

### ३. एकाग्रता और आत्म-संयम का विकास

अष्टांग योग के धारणा और ध्यान चरणों का अभ्यास व्यक्ति में एकाग्रता और आत्म-संयम को बढ़ाता है। धारणा के माध्यम से मन को एक विशेष लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है, जिससे मानसिक विचलन कम होते हैं। ध्यान के माध्यम से मन में शांति और स्थिरता आती है, जो आत्म-जागरूकता को बढ़ावा देती है। यह अभ्यास व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थितियों में निर्णय लेने में मदद करता है और मानसिक मजबूती विकसित करता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

### ४. आंतरिक शुद्धता और अनुशासन

यम और नियम जैसे नैतिक सिद्धांतों का पालन अष्टांग योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सिद्धांत व्यक्ति को नैतिकता, अनुशासन और आत्म-नियंत्रण का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। यम के तहत हिंसा, झूठ और लालच से बचने का अभ्यास किया जाता है, जबकि नियम के तहत स्वच्छता, आत्म-अध्ययन और ईश्वर-प्रणिधान जैसे सिद्धांतों का पालन होता है। यह अभ्यास व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध, अनुशासित और आत्म-जागरूक बनाता है, जो उसके समग्र विकास में सहायक होता है।

### ५. आध्यात्मिक विकास

ध्यान और समाधि के अभ्यास से व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ता है। समाधि में व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच एकत्व की अनुभूति करता है, जो उसे आत्म-साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति सांसारिक दुखों और इच्छाओं से परे जाकर शांति और संतोष का अनुभव करता है। ध्यान के माध्यम से मन की

विभिन्न चेतनाओं को एकत्रित कर ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ा जाता है, जिससे आत्मा को परम शांति और स्थिरता प्राप्त होती है।

### ६. रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि

अष्टांग योग के नियमित अभ्यास से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। प्राणायाम और ध्यान से शरीर का तंत्रिका तंत्र और इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। यह हृदय, श्वसन और पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, जिससे शरीर बीमारियों से सुरक्षित रहता है। योग तनाव और मानसिक दबाव को कम करके शारीरिक ऊर्जा को पुनः सक्रिय करता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करता है।

### II साहित्य समीक्षा

यह साहित्य समीक्षा अष्टांग योग के आठ अंगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो तनाव प्रबंधन, मानसिक स्थिरता और शारीरिक विकास में सहायक हैं।

**जाना (२०२४)** ने अष्टांग योग के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि तनाव, चिंता और मानसिक विकार जैसे वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारंपरिक चिकित्सा विधियां सीमित हैं। अध्ययन में बताया गया कि योग शरीर की प्राकृतिक तनाव प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय कर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। अष्टांग योग के आठ अंग, जिनमें बाह्य और आंतरिक अभ्यास शामिल हैं, समग्र स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**कुमार (२०२२)** ने अपने अध्ययन में बताया कि योग को वैश्विक स्तर पर पूरक चिकित्सा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि योग शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन और तनाव प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अध्ययन ने शैक्षिक और स्वास्थ्य पहल में योग को शामिल करने की सिफारिश की, ताकि जीवन की गुणवत्ता और मानसिक स्पष्टता में सुधार हो सके। कुमार का सुझाव है कि शैक्षिक और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योग को शामिल करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। योग से सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है और यह तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी मानसिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।

**भट्टाचार्य (२०१७)** के शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि नियमित योग अभ्यास से आंतरिक और बाह्य शारीरिक कार्यप्रणालियों में सुधार होता है। अध्ययन में बताया गया कि योग से शरीर की शक्ति, संतुलन और ऊर्जा का समुचित विकास होता है। योगिक तकनीकें जैसे प्राणायाम, ध्यान और धारणा व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता और ध्यान शक्ति में सुधार करती हैं। यह शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाती हैं और श्वसन क्षमता को भी बेहतर बनाती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि योग का अभ्यास हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। योग मन की शांति और आत्म-जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होता है।

**पुष्पा (२०१५)**, इस अध्ययन ने हृदय गति और रक्तचाप पर योग आसनों के प्रभाव का विश्लेषण किया। परिणामों से पता चला कि योग का अभ्यास हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। नियमित आसनों के अभ्यास से तनाव-प्रेरित हृदय रोगों में कमी आती है और हृदय गति स्थिर रहती है। अध्ययन में विभिन्न योग आसनों के तुरंत प्रभाव का परीक्षण किया गया और पाया गया कि योग से शारीरिक तंत्रों में सुधार होता है। योगिक प्राणायाम और ध्यान व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इसके साथ ही यह शरीर को ऊर्जा, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अध्ययन ने यह भी सुझाव दिया कि हृदय रोगियों के लिए योग एक प्रभावी पूरक चिकित्सा हो सकता है।

**गुप्ता (२०१६)**: अध्ययन में कार्यस्थल पर मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग के लाभों का आकलन किया गया। शोध में पाया गया कि नियमित योग अभ्यास से कर्मचारियों में आत्म-संयम और कार्यक्षमता में सुधार हुआ।

मानसिक तनाव और थकान को कम करने में योगिक प्राणायाम और ध्यान अत्यधिक सहायक होते हैं। अध्ययन ने सुझाव दिया कि कार्यस्थलों पर योग को एक स्वास्थ्य पहल के रूप में अपनाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, योग मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है। इस प्रकार, योग तनाव प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपाय सिद्ध हुआ है।

**बिजीलाल (२००४)**, इस अध्ययन में प्राणायाम और अन्य योगिक तकनीकों के श्वसन और हृदय प्रणाली पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में यह पाया गया कि नियमित प्राणायाम अभ्यास से फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है और श्वसन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह बेहतर होता है, जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण और मानसिक तनाव के कारण श्वसन समस्याएं अधिक होती हैं, जबकि प्राणायाम के माध्यम से इन समस्याओं में कमी लाई जा सकती है।

**खालसा (२००४)**, के अध्ययन में योग को मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे चिंता और अवसाद में सकारात्मक प्रभावी पाया गया। शोध में यह दर्शाया गया कि योग अभ्यास से शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो तनाव और मानसिक विकारों को कम करने में मदद करता है। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्पष्टता और आत्म-संयम को बढ़ावा मिलता है। यह अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग को एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान करता है।


**किर्कवुड (२००५)**, इस शोध में चिंता विकारों में योग की प्रभावशीलता पर एक व्यवस्थित समीक्षा की गई। अध्ययन में यह पाया गया कि योग मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में एक प्रभावी साधन हो सकता है। परिणामों से पता चला कि योग के नियमित अभ्यास से मानसिक विकारों जैसे चिंता और अवसाद में कमी आती है। योग से व्यक्ति में आत्म-नियंत्रण, एकाग्रता और शांति की भावना विकसित होती है। अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में योग को पूरक चिकित्सा के रूप में अपनाया जा सकता है।

### III पद्धति

इस अध्ययन में अष्टांग योग के स्वास्थ्य पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया। ५५ प्रतिभागियों पर प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया। डेटा संग्रह के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग किया गया और SPSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांख्यिकीय परीक्षण (फ्रीक्वेंसी और T-टेस्ट) किए गए।


### IV परिणाम एवं चर्चा

इस शोध में प्राथमिक डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। डेटा की गणना और व्याख्या के लिए फ्रीक्वेंसी टेस्ट और T-टेस्ट जैसे सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया है।




आपकी आयु किस श्रेणी में आती है?

उपरोक्त डेटा के अनुसार, सर्वेक्षण में ५५ प्रतिभागियों में से अधिकतम (३६.४%) प्रतिभागी ३६-४५ वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। इसके बाद १८-२५ वर्ष (२३.६%), २६-३५ वर्ष (२१.८%) और ४६ वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग (१८.२%) के प्रतिभागी शामिल हैं।



### आप किस क्षेत्र में कार्यरत हैं?


उपरोक्त सारणी के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल ५५ व्यक्तियों में से ४३.६% प्रतिभागी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके बाद २३.६% शैक्षणिक, १८.२% चिकित्सा, और १४.५% अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिभागियों की संख्या अधिक है।



### आप कितने समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं?

उपरोक्त सारणी के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल ५५ व्यक्तियों में से अधिकतम २९.१% प्रतिभागी ३-५ वर्ष से योग का अभ्यास कर रहे हैं। २७.३% प्रतिभागी १-३ वर्ष, २३.६% प्रतिभागी ५ वर्ष से अधिक, और २०.०% प्रतिभागी ०-१ वर्ष से योग का अभ्यास कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि अधिकांश प्रतिभागी ३-५ वर्ष से नियमित योग कर रहे हैं।


1. अष्टांग योग के अभ्यास से आपकी शारीरिक क्षमता और लचीलापन में कितना सुधार हुआ है?



**अष्टांग योग के अभ्यास से आपकी शारीरिक क्षमता और लचीलापन में कितना सुधार हुआ है?**

उपरोक्त सारणी के अनुसार, ५५ प्रतिभागियों में से ३४.५% ने बताया कि अष्टांग योग के अभ्यास से उनकी शारीरिक क्षमता और लचीलापन में बहुत अधिक सुधार हुआ है। ३०.९% प्रतिभागियों ने कुछ हद तक सुधार महसूस किया, जबकि २०.०% ने कहा कि उन्हें न तो अधिक और न कम सुधार हुआ है। ७.३% प्रतिभागियों ने थोड़ा सा सुधार महसूस किया और ७.३% ने किसी भी प्रकार का सुधार नहीं अनुभव किया। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश प्रतिभागियों को योग से शारीरिक सुधार हुआ है।


2. नियमित योग अभ्यास से मानसिक तनाव में कमी महसूस होती है?



**नियमित योग अभ्यास से मानसिक तनाव में कमी महसूस होती है?**

उपरोक्त सारणी के अनुसार, ५५ प्रतिभागियों में से ३२.७% प्रतिभागी नियमित योग अभ्यास से मानसिक तनाव में कमी को लेकर सहमत हैं, जबकि २९.१% पूरी तरह से सहमत हैं। २१.८% प्रतिभागियों ने न तो सहमति और न ही असहमति व्यक्त की। ९.१% प्रतिभागी असहमत हैं और ७.३% पूरी तरह से असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश प्रतिभागियों ने योग के अभ्यास से मानसिक तनाव में कमी महसूस की है।

5. क्या अष्टांग योग के अभ्यास से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) में वृद्धि हुई है?



### क्या अष्टांग योग के अभ्यास से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) में वृद्धि हुई है?

उपरोक्त सारणी के अनुसार, ५५ प्रतिभागियों में से ३४.५% ने कहा कि अष्टांग योग के अभ्यास से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कुछ हद तक वृद्धि हुई है, जबकि ३२.७% प्रतिभागियों ने मामूली सुधार की बात कही। २५.५% प्रतिभागियों ने बताया कि उनकी इम्यूनिटी में बहुत अधिक सुधार हुआ है। केवल ७.३% प्रतिभागियों ने कहा कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि अधिकांश प्रतिभागियों ने योग से अपनी इम्यूनिटी में सुधार महसूस किया है।

### एक-नमूना परीक्षण

	परीक्षण मान = ०					
	टी	डीएफ	महत्वपूर्ण मान (२-पुच्छीय)	मीन डिफ्रेंस	९५% कॉन्फिडेंस इंटरवल	
					लोअर	अपर
१. योग के अभ्यास से आपके मन और शरीर के बीच तालमेल कितना बेहतर हुआ है?	२०.७२०	५४	.०००	२.९०९०९	२.६२७६	३.१९०६
२. क्या योग के विभिन्न अभ्यास (आसन, प्राणायाम, ध्यान) से आपको मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद	२२.८९२	५४	.०००	३.४५४५५	३.१५२०	३.७५७१
३. क्या प्राणायाम (श्वस नियंत्रण) के अभ्यास से आप शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता महसूस करते हैं?	२७.४१९	५४	.०००	३.६००००	३.३३६८	३.८६३२

४. ध्यान (मेडिटेशन) के माध्यम से आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कितना सुधार हुआ है?	३३.१९०	५४	.०००	४.०३६३६	३.७९२५	४.२८०२
५. योग अभ्यास के दौरान श्वसन और शारीरिक मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव में कमी आती है?	२१.७८८	५४	.०००	३.६३६३६	३.३०१८	३.९७१०
६. क्या आप योग के अभ्यास से दैनिक जीवन की समस्याओं का सामना अधिक आत्मविश्वास और संयम के साथ	२१.५७४	५४	.०००	३.३८१८२	३.०६७५	३.६९६१

उपरोक्त सारणी के अनुसार, योग अभ्यास के सभी पहलुओं में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार पाया गया है ( $p$ -value = .०००)। मन और शरीर के तालमेल में सुधार के लिए  $t$ -value २०.७२० और औसत अंतर २.९१ है। मानसिक शांति में  $t$ -value २२.८९२ और औसत अंतर ३.४५ दर्ज किया गया। प्राणायाम से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता में सुधार के लिए  $t$ -value २७.४१९ और औसत अंतर ३.६० है। ध्यान के अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है ( $t$ -value = ३३.१९०, Mean = ४.०४)। योग अभ्यास के दौरान तनाव में कमी ( $t$ -value = २१.७८८) और दैनिक समस्याओं का सामना करने में आत्मविश्वास में वृद्धि ( $t$ -value = २१.५७४) पाई गई। यह दर्शाता है कि योग अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार होता है।

## V निष्कर्ष

इस अध्ययन में अष्टांग योग के अभ्यास के स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि हुई। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक लचीलापन, सहनशक्ति और मानसिक संतुलन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मानसिक तनाव में कमी, आत्म-संयम में वृद्धि, तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई। सांख्यिकीय परीक्षणों ने दर्शाया कि योग के सभी पहलुओं में सुधार महत्वपूर्ण है। प्रतिभागियों ने योग के माध्यम से दैनिक जीवन की समस्याओं का आत्मविश्वास और संयम से सामना करने की क्षमता विकसित की।

इन निष्कर्षों के आधार पर, यह सिफारिश की जाती है कि योग को स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों और मानसिक तनाव प्रबंधन की रणनीतियों में शामिल किया जाए। यह अध्ययन योग को एक प्रभावी पूरक चिकित्सा के रूप में स्थापित करता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक है।

## संदर्भ

1. सुनील जाना. (२०२४)। "अष्टांग योग का प्रभाव: एक विश्लेषण"। योगिक अध्ययन प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. कुमार, आर. (२०२२)। "स्वास्थ्य और योग: मानसिक और शारीरिक प्रभाव"। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग रिसर्च।

3. भट्टाचार्य, डी. (२०१७)। "योग का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव"। योग एवं ध्यान अध्ययन केंद्र, कोलकाता।
4. पुष्पा, एस. (२०१५)। "योग और हृदय स्वास्थ्य"। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज।
5. गुप्ता, पी. (२०१६)। "कार्यस्थल पर योग का प्रभाव"। मानव संसाधन और स्वास्थ्य जर्नल।
6. बिजीलाल, एम. (२००४)। "प्राणायाम और स्वास्थ्य श्वसन"। जर्नल ऑफ योगिक हेल्थ रिसर्च।
7. खालसा, एस. (२००४)। "मानसिक स्वास्थ्य में योग का योगदान"। अमेरिकन योगिक एसोसिएशन स्वास्थ्य।
8. किर्कवुड, जे., एट अल. (२००५)। "चिंता मठ में योग की दोस्ती"। जर्नल ऑफ़ क्लिनिकल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन।